

प्रेस नोट दिनांक-11.10.2021

(1). आज दिनांक 11.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने एक वाँछित व एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 148/19 धारा 307/308/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बुद्धन केवट पुत्र धर्मपाल निवासी भितरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ

2.आरक्षी अमित चौरसिया

(ii). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 177/2021 धारा 354ख/323/506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त अंगद निषाद पुत्र आनन्दी निवासी बालापुर अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी अरविन्द्र कुमार मौर्य

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 11.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, डॉट पुल, बस स्टैण्ड आदि स्थानों में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, भैरो पागा, काली माता मन्दिर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु

बताते हुये कोरोना वैक्सिन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

(4). आज दिनांक-10.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक यू0पी0 112 मुख्यालय श्री हरेन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की उपस्थिति में रामघाट चित्रकूट में यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से आयी, प्रचार-प्रसार की टीम व जनपद चित्रकूट पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान यूपी 112 की विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में 112 नम्बर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते है।

मीडिया सेल प्रभारी 112 मुख्यालय लखनऊ ने नागरिकों को बताया कि आग लगने, एंबुलेंस की आवश्यकता होने, पुलिस सहायता तथा प्राकृतिक आपदा के समय 112 से संपर्क कर मदद ली जा सकती है। 112 से विभिन्न माध्यमों फोन करके, व्हाट्सएप (7570000100), एसएमएस (7233000100), ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर प्रभारी 112 निरीक्षक श्री आर0के0 सिंह, प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी चौकी सीतापुर श्री रामवीर सिंह उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री अजी कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायाधीश श्री संजय के लाल अपर सत्र न्यायाधीश जनपद चित्रकूट द्वारा आज दिनांक 11.10.2021 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2017 धारा 354/504/506 भादवि0 व 08 पोक्सो एक्ट व 3(1)ब(1), 3(1)ध व 3(2)5 एससी/एसटी के आरोपित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र कल्लू यादव निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कारावास व 10000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनांक-11.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के बैंकों में चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। बैंक डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक

परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया। बैंक में उपस्थित लोगों से मास्क लगाने हेतु एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री प्रवीण सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु०सं० 1975/2016 धारा 143/147/341/353 भादवि० व 07 क्रि०ला०अ० एक्ट के वारण्टी अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र अनन्तराम उर्फ नर्वदा निवासी वैध जी का बाड़ा कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री प्रवीण सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी गोलू भार्गव